



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)  
Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)  
ई-मेल/Email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



**संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001**  
**Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001** फोन/Phone: 022 - 2266 0502

21 मार्च 2025

**भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश**

| 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* |          |         |          |        |      |
|-----------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|------|
| (₹ करोड़)                                     |          |         |          |        |      |
| मद                                            | 2024     | 2025    |          | घट-बढ़ |      |
|                                               | 15 मार्च | 7 मार्च | 14 मार्च | सप्ताह | वर्ष |
|                                               | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    |
| <b>4. ऋण और अग्रिम</b>                        |          |         |          |        |      |
| 4.1 केंद्र सरकार                              | -        | 0       | -        | 0      | -    |
| 4.2 राज्य सरकारें                             | 19929    | 39684   | 23828    | -15856 | 3899 |

\* आंकड़े अंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

| 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि*        |                  |               |                            |             |                          |             |               |              |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|
| मद                                    | 14 मार्च 2025 तक |               | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |             |                          |             |               |              |
|                                       |                  |               | सप्ताह                     |             | मार्च 2024 की समाप्ति पर |             | वर्ष          |              |
|                                       | ₹ करोड़          | मिलियन अ.\$   | ₹ करोड़                    | मिलियन अ.\$ | ₹ करोड़                  | मिलियन अ.\$ | ₹ करोड़       | मिलियन अ.\$  |
|                                       | 1                | 2             | 3                          | 4           | 5                        | 6           | 7             | 8            |
| <b>1 कुल आरक्षित निधि</b>             | <b>5692791</b>   | <b>654271</b> | <b>10692</b>               | <b>305</b>  | <b>301535</b>            | <b>7852</b> | <b>367088</b> | <b>11779</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#           | 4848035          | 557186        | 6048                       | -96         | 86191                    | -13764      | 136600        | -11200       |
| 1.2 स्वर्ण                            | 647273           | 74391         | 1493                       | 66          | 207954                   | 21717       | 223363        | 23251        |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                 | 158894           | 18262         | 672                        | 51          | 7671                     | 130         | 7402          | -14          |
| 1.4 आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति | 38588            | 4431          | 2478                       | 283         | -281                     | -231        | -277          | -257         |

\* घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

# इसमें (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिता, क्योंकि वे एसडीआर धारिता के तहत शामिल हैं; (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्ड में निवेश; और (सी) सार्क और एसीयू मुद्रा स्वेप व्यवस्था के तहत उधार दी गई राशि, शामिल नहीं हैं।

| 4. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक – भारत में कारोबार |                       |               |                            |                |                |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| (₹ करोड़)                                     |                       |               |                            |                |                |                |
| मद                                            | 7 मार्च 2025 को बकाया | पखवाड़ा       | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                |                |                |
|                                               |                       |               | वित्त वर्ष में अब तक       |                | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                               |                       |               | 2023-24                    | 2024-25        | 2024           | 2025           |
|                                               | 1                     | 2             | 3                          | 4              | 5              | 6              |
| <b>2 अन्यो के प्रति देयताएं</b>               |                       |               |                            |                |                |                |
| 2.1 कुल जमा राशियां                           | 22510123              | 225818        | 2376168                    | 2034896        | 2461758        | 2090041        |
|                                               | (22449530)            |               | (2265674)                  |                | (2351264)      | (2139943)      |
| 2.1क. संवृद्धि (प्रतिशत)                      |                       | 1.0           | 13.2                       | 9.9            | 13.7           | 10.2           |
|                                               |                       |               | (12.6)                     |                | (13.1)         | (10.5)         |
| 2.1.1 मांग                                    | 2541481               | 17386         | 194120                     | 97628          | 255398         | 166931         |
| 2.1.2 मीयादी                                  | 19968641              | 208432        | 2182049                    | 1937268        | 2206360        | 1923109        |
| 2.2 उधार                                      | 939108                | 38133         | 317538                     | 161165         | 311527         | 176240         |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं               | 1056077               | 34469         | 158030                     | 118649         | 137833         | 108395         |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                              | <b>18128582</b>       | <b>138603</b> | <b>2638324</b>             | <b>1696418</b> | <b>2764966</b> | <b>1815023</b> |
|                                               | (17701852)            |               | (2106393)                  |                | (2233035)      | (1920225)      |
| 7.1क. वृद्धि (प्रतिशत)                        |                       | 0.8           | 19.3                       | 10.3           | 20.4           | 11.1           |
|                                               |                       |               | (15.4)                     |                | (16.5)         | (12.2)         |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                | 42552                 | -4896         | 11798                      | 19471          | 3425           | 10849          |
| 7 क.2 खाद्येतर ऋण                             | 18086030              | 143498        | 2626526                    | 1676947        | 2761541        | 1804175        |

1. 14 जुलाई 2023 से आंकड़े में एक गैर-बैंक का बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

| 6. मुद्रा स्टॉक: घटक और स्रोत                                                       |                |            |                            |       |                      |      |           |        |              |      |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------|-------|----------------------|------|-----------|--------|--------------|------|-----------|--------|
| (₹ करोड़)                                                                           |                |            |                            |       |                      |      |           |        |              |      |           |        |
| मद                                                                                  | निम्न को बकाया |            | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |       |                      |      |           |        |              |      |           |        |
|                                                                                     | 2024           | 2025       | पखवाड़ा                    |       | वित्त वर्ष में अब तक |      |           |        | वर्ष-दर-वर्ष |      |           |        |
|                                                                                     |                |            |                            |       | 2023-24              |      | 2024-25   |        | 2024         |      | 2025      |        |
|                                                                                     | 31 मार्च       | 7 मार्च    | राशि                       | %     | राशि                 | %    | राशि      | %      | राशि         | %    | राशि      | %      |
|                                                                                     | 1              | 2          | 3                          | 4     | 5                    | 6    | 7         | 8      | 9            | 10   | 11        | 12     |
| एम3                                                                                 | 24831618       | 27107341   | 255262                     | 1.0   | 2393451              | 10.7 | 2275723   | 9.2    | 2513490      | 11.3 | 2370130   | 9.6    |
|                                                                                     | (24939860)     | (27167933) | (253991)                   | (0.9) |                      |      | (2228073) | (8.9)  |              |      | (2320228) | (9.3)  |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)                                                             |                |            |                            |       |                      |      |           |        |              |      |           |        |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                                                              | 3410276        | 3589568    | 31135                      | 0.9   | 106365               | 3.2  | 179293    | 5.3    | 124708       | 3.8  | 206768    | 6.1    |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि                                                      | 2586888        | 2683263    | 18288                      | 0.7   | 198553               | 8.6  | 96375     | 3.7    | 260299       | 11.5 | 164113    | 6.5    |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि                                                    | 18739918       | 20725726   | 210367                     | 1.0   | 2082743              | 12.5 | 1985808   | 10.6   | 2109193      | 12.7 | 1974017   | 10.5   |
|                                                                                     | (18848160)     | (20786318) | (209097)                   | (1.0) |                      |      | (1938158) | (10.3) |              |      | (1924115) | (10.2) |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि                                              | 94536          | 108784     | -4528                      | -4.0  | 5791                 | 7.4  | 14248     | 15.1   | 19290        | 30.0 | 25232     | 30.2   |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                                                       |                |            |                            |       |                      |      |           |        |              |      |           |        |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                                                           | 7512016        | 8267354    | 167687                     | 2.1   | 284522               | 4.0  | 755339    | 10.1   | 470058       | 6.7  | 817300    | 11.0   |
|                                                                                     | (7603571)      | (8318035)  | (167485)                   | (2.1) |                      |      | (714464)  | (9.4)  |              |      | (776265)  | (10.3) |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                                                  | 1193213        | 1274550    | 81160                      |       | -316854              |      | 81337     |        | -157029      |      | 140278    |        |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                                                     | 6318803        | 6992805    | 86527                      | 1.3   | 601376               | 10.5 | 674002    | 10.7   | 627087       | 11.0 | 677022    | 10.7   |
|                                                                                     | (6410358)      | (7043485)  | (86326)                    | (1.2) |                      |      | (633127)  | (9.9)  |              |      | (635988)  | (9.9)  |
| 2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण                                                    | 16672145       | 18511865   | 143481                     | 0.8   | 2111949              | 14.6 | 1839720   | 11.0   | 2248053      | 15.7 | 1970280   | 11.9   |
|                                                                                     | (17202832)     | (18938595) | (137008)                   | (0.7) |                      |      | (1735763) | (10.1) |              |      | (1865079) | (10.9) |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                                                  | 14406          | 26944      | -1650                      |       | -15148               |      | 12537     |        | -7319        |      | 15543     |        |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                                                     | 16657739       | 18484922   | 145131                     | 0.8   | 2127097              | 14.8 | 1827183   | 11.0   | 2255371      | 15.8 | 1954738   | 11.8   |
|                                                                                     | (17188426)     | (18911651) | (138658)                   | (0.7) |                      |      | (1723226) | (10.0) |              |      | (1849536) | (10.8) |
| नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है। |                |            |                            |       |                      |      |           |        |              |      |           |        |

| 8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन               |                       |                 |                  |                             |         |         |                         |                |       |                                                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------|
| (₹ करोड़)                                                  |                       |                 |                  |                             |         |         |                         |                |       |                                                      |
| तारीख                                                      | चलनिधि समायोजन सुविधा |                 |                  |                             |         |         | स्थायी चलनिधि सुविधायें | ओएमओ (एकमुश्त) |       | निवल अंतर्वेशन(+)/ अवशोषण (-)<br>(1+3+5+7+9-2-4-6-8) |
|                                                            | रेपो                  | प्रतिवर्ती रेपो | परिवर्ती दर रेपो | परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो | एमएसएफ़ | एसडीएफ़ |                         | विक्रय         | क्रय  |                                                      |
|                                                            | 1                     | 2               | 3                | 4                           | 5       | 6       |                         | 8              | 9     |                                                      |
| 10 मार्च 2025                                              | -                     | -               | 29489            | -                           | 1179    | 85688   | -9                      | -              | -     | -55029                                               |
| 11 मार्च 2025                                              | -                     | -               | 15791            | -                           | 39      | 110470  | -531                    | -              | -     | -95171                                               |
| 12 मार्च 2025                                              | -                     | -               | 18186            | -                           | 587     | 79966   | -                       | -              | -     | -61193                                               |
| 13 मार्च 2025                                              | -                     | -               | 59868            | -                           | 239     | 105973  | 1437                    | -              | 50000 | 5571                                                 |
| 14 मार्च 2025                                              | -                     | -               | -                | -                           | 25559   | 58429   | -                       | -              | -     | -32870                                               |
| 15 मार्च 2025                                              | -                     | -               | -                | -                           | 15179   | 62983   | -                       | -              | -     | -47804                                               |
| 16 मार्च 2025                                              | -                     | -               | -                | -                           | 13186   | 60480   | -                       | -              | -     | -47294                                               |
| एसडीएफ़: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ़: सीमांत स्थायी सुविधा। |                       |                 |                  |                             |         |         |                         |                |       |                                                      |

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट <https://wss.rbi.org.in/> पर देखी जा सकती है।  
डब्ल्यूएसएस के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां डब्ल्यूएसएस संबंधी हस्तपुस्तिका (<https://rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=15762>) में उपलब्ध हैं।  
समय शृंखला आंकड़े <https://data.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।